



Ref: D/CTL/SE/2024-25/65

March 25, 2025

To,  
BSE Limited,  
P J Towers, Dalal Street,  
Fort, Mumbai -400001

Scrip Code: 538476

ISIN: INE172D01021

Scrip ID: CTL

**SUB.: NEWSPAPER ADVERTISEMENT – RECORD DATE FOR ISSUE OF BONUS SHARES.**

**REF.: REGULATION 30 OF SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015.**

In line with Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed newspaper clippings in respect of the notice to members of the company intimating record date for issue of bonus shares, published in the Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on 25th March 2025.

We request you to take the above on record and disseminate to all concerned.

Thanking You

Your Sincerely,  
For Capital Trade Links Limited

**Kunika Agarwal**  
**(Company Secretary & Compliance Officer)**

Enc: As Above



of Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on as per under mentioned Date. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of "MPFI" and interest other charges thereon. The attention of the Borrower is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset.

**Name of the Borrower /Co-Borrower :-** 1. Mrs. Suwa Devi (Borrower) W/o Babulal Saini Ward 08, Tiba Wali Dhani Dayra (Rural), Sikar, Rajasthan, 332709 Also At: Kanwat Road Unn Factory Ke Samne, Tiba Wali Dhani, Tehsil Khandela, Dayra (Rural) Sikar, Rajasthan, 332709 Also At: 505 Bhoga Ka Wali Dhani, Tehsil Shrimadhapur District Shikar Rajasthan, 332709  
**2. Mr. Babu Lal Saini (Co-Borrower) S/o Chhotu Ram Saini** Kanwat Road Unn Factory Ke Samne, Tiba Wali Dhani, Tehsil Khandela, Dayra (Rural) Sikar, Rajasthan, 332709 **3. Mr. Govind Saini (Co-Borrower) S/o Babulal Saini** Ward No 9, Bhofa Ki Dhani, Khandela (rural) Sikar, Rajasthan - 332709 **4. Mr. Shri Ram Saini S/o Babulal Saini** Ward No 14, Tiba Ki Dhani, Tehsil - Khandela, Dayra (Rural) Sikar, Rajasthan - 332709

**Demand Notice Dated :-** 28.12.2024 **Date of Possession:-**19.03.2025  
**Loan A/c number-** LP000000006232  
**Amount of Demand Notice :-** Rs. 8,94,684.89/- as on 18-DEC-2024

**DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY**

Residential Plot Admeasuring 364.16 Sq.yds. Of 1/3 Share Of Khasra No. 1576, 1579 Situated At Village Dayra, Tehsil - Khandela, District - Sikar, Rajasthan East - Animal - Bada (cattel Yard) West - Land And Thereafter Rasta North - House Of Dhanna Ram South - House Of Ramjilal Saini And Rasta

**Date :-** 25.03.2025 **Authorised officer**  
**Place :-** Rajasthan **Manibhavnam Home Finance India Private Limited**

**CAPITAL TRADE LINKS LIMITED**

CIN: L51909DL1984PLC019622  
 Regd. Office: 102-103, First Floor, Surya Kiran Building, 19 K.G. Marg, Connaught Place, New Delhi 110001

Website: www.capitaltrade.in & Email: cs@capitaltrade.in

**NOTICE TO THE MEMBERS OF THE COMPANY  
 RECORD DATE FOR ISSUE OF BONUS EQUITY SHARES**

Notice is hereby given that the Company has fixed **Wednesday, April 02, 2025** as the "Record Date" for the purpose of determining the eligibility of members for Bonus Equity Shares in the proportion of 1:1 i.e.1 (One) new bonus equity shares of face value of ₹/- each fully paid-up, for every 1 (One) existing fully paid-up equity share of face value of ₹ 1/- each. The Bonus Shares shall be allotted to the members of the Company whose names appear in the Register of Members/ Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories, as on the Record Date, and shall be subject to the provisions of the Memorandum & Articles of Association of the Company and shall rank pari passu in all respects and carry the same rights as the existing fully paid-up equity shares of the Company. Pursuant to SEBI (ICDR) Regulations, 2018 and Listing Regulations, 2015, the allotment of shares in bonus issue shall be made only in dematerialized form and thus, in case of members who hold equity shares in dematerialized form, the bonus equity shares shall be credited to the respective beneficiary accounts of the Members with their respective Depository Participant(s) and in the case of Members who hold equity shares in physical form, the bonus equity shares shall be transferred to Suspense Account, by whatever name called, opened in this regard, within such time as prescribed by law and the relevant authorities, subject to guidelines issued by SEBI in this regard.

For Capital Trade Links Limited  
 Sd/-  
 Kunika Agarwal  
 (Company Secretary)

Place: New Delhi  
 Date: March 24, 2025

1. MR. BHARAT KUMAR MRS. NEETU, V8-815, DELHI -110025 | Possession Date : 20-Mar-25  
 024 & Rs.32,85,134/- as on 16-12-2024

(No.2) Left Hand Side Upper Ground Floor , Area Common Terrace Land Measuring 500 Sq.yards 634 Min Village Chattarpur, oxford Angel Public Post: Other Wing North: Other Flat South: Road

0000251 & CO/CPC/CPOF/A000002289.  
 ANAPULLAIAH 2. MR. ANUMUAL SUCHARITHA. COLONY HALOL, GODHRA, GUJRAT - 389350 | Possession Date : 20-Mar-25

024 & Rs. 48,67,024/- as on 09-12-2024  
 ce And Parcel Of Ground Floor And Basement Of 053 A/10, Area Measuring 210 Sq Yds Part Of , Kalkaji Delhi -110019.

1. Mr. Surender Singh 2. Mrs. Pramilla. 37/9, St. Delhi -110070 | Possession Date : 20-Mar-25  
 024 & Rs. 23,57,237/- as on 09-12-2024

st Floor Area Measuring 130 Sq.yds In Build Up 1151/3, Situated Within The Extended Lal Dora -110030

with the property will be subject to the charge of the  
 d Officer- HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

पंजाब एण्ड सिंध बैंक  
 (भारत सरकार का उपक्रम)



Punjab & Sind Bank  
 (A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

**PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE ASSETS**

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets is issued under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower, Mortgagor (s) and Secured Creditor, Symbolic/Physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of the Bank/Secured Creditor, will be sold on "As is where is" basis. The details of Borrower(s)/Mortgagor(s)/Guarantors(s)/details of secured Assets(s)/Dues/Reserve price/e-Auction date & Time, EMD amount and other charges thereon are given below:

**DESCRIPTION OF IMMOVABLE ASSETS**

Sl. No.	Name of Borrower/ Guarantor & Branch	Description of the property	Demand Notice Date & Outstanding Amount (Rs.) as on + future interest & other expenses thereon	Reserve Price		Proper Inspect Date & Time	QR CODE FOR PROPERTY IMAGE	QR CODE FOR SERVICE PROVIDER
				EMD	Bid increase Amount			
1.	Borrower- M/S Durga Traders Partners- Sh. Om Prakash Goenka and Sh. Abhimanyu Goenka Guarantor- Sh. Ajay Goenka, Sh. Nikhil Goenka, Ms. Alka Goenka and Ms. Sandhya Goenka BO - Mukherji Nagar	Property No. 188 Ward No. III Gali Saraswali, Tilak Bazaar, Khari Baoli Delhi 110006 in the name of Om Prakash Goenka bearing sale deed no doc no 479, in additional book no 1 Vol no 7093 page no. 121-130 dated 12-01-1996 at sub registrar Office No. 1 Kashmere Gate	30-09-2024 Rs.6,14,15,322.90P plus further interest, expenses and other charges etc thereon	Rs. 2,35,00,000/- Rs. 23,50,000/- Rs. 1,00,000/-	18-04-25 10:00 to 1:00			
2.	Borrower- M/S Durga Traders Partners- Sh. Om Prakash Goenka and Sh. Abhimanyu Goenka Guarantor- Sh. Ajay Goenka, Sh. Nikhil Goenka, Ms. Alka Goenka and Ms. Sandhya Goenka BO - Mukherji Nagar	Property No. 189-190 Ward No. III Gali Saraswali, Tilak Bazaar, Khari Baoli Delhi 110006 in the name of Smt. Alka Devi Goenka and Smt. Sandhya Devi Goenka bearing sale deed no doc no 7119, in additional book no 1 vol no 5201 page no 34-43 dated 28-12-1989 at sub registrar office no 1 Kashmere Gate	30-09-2024 Rs. 6,14,15,322.90P plus further interest, expenses and other charges etc thereon	Rs. 2,06,00,000/- Rs. 20,60,000/- Rs. 1,00,000/-	18-04-25 10:00 to 1:00			
3.	Borrower -M/S Khyati Switchgear Prop. Sh. Pawan Kakaria S/O Sh. Rajpaul Kakaria	Area 407 Sq. Yards in physical possession out of total area of 1008 Sq. Yards (which is equitable mortgaged with the bank) of Property No. 63, Block C, J.P. Post, Vasant Vihar Extension, Khairpur No. 4749, Min	07.05.2021 Rs. 1,60,90,307/29P plus further interest, expenses and other charges etc thereon	Rs. 1,58,00,000/- Rs. 15,80,000/- Rs. 1,00,000/-	18-04-25 10:00 to 1:00			

DELHI II,  
 AREA, PHASE 1,  
 DELHI 110028

11.00 PM)

movable of the Security Interest  
 red Creditor, Symbolic/Physical  
 oned account/s. The details of